



Ref. No. CS/S/L-640/2022-23

7<sup>th</sup> February, 2023

<p>To: The Listing Department <b>NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED</b> "Exchange Plaza" Bandra Kurla Complex, Bandra (E ), Mumbai – 400 051 <b>Scrip Code: VMART</b> Fax: 022-26598120 Email: cmlist@nse.co.in</p>	<p>To: The Corporate Relationship Department <b>THE BSE LTD</b> Phiroze Jeejeebhoy Towers,c Dalal Street, Mumbai – 400 001 <b>Scrip Code: 534976</b> Fax: 022-22723121 Email: corp.relations@bseindia.com</p>
---	---

**Sub: Copies of the Newspaper Publication**

Dear Sir/Ma'am,

Please find enclosed herewith the copy of the newspaper publication of the unaudited financial results of the Company for the third quarter and nine months ended 31<sup>st</sup> December, 2022 as published in terms of the Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, on Tuesday, 7<sup>th</sup> February, 2023 in "Business Standard" — English and — "Business Standard" Hindi newspapers.

This information will also be made available on the Company's website at [www.vmart.co.in](http://www.vmart.co.in).

Request you to kindly take the same on record.

Thanking You,

Yours Truly  
**For V-Mart Retail Limited**

**Megha Tandon**  
**Company Secretary & Compliance Officer**

Encl: As above

**V-MART RETAIL LTD.**

CIN- L51909DL2002PLC163727

Corporate Office : Plot No. 862, Udyog Vihar, Industrial Area Phase V, Gurgaon - 122 016 (Haryana)  
Tel. : 0124-4640030, Fax No. : 0124-4640046 Email : info@vmart.co.in Website : www.vmart.co.in  
Registered Office : 610-611, Guru Ram Dass Nagar, Main Market, Opp. SBI Bank, Laxmi Nagar, New Delhi - 110092

**CACHET PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED**  
 CIN No: U24230BR1978PC001328  
 Head Office: 415, Shah Nahar, Dr. E. Moses Road, Wagle, Mumbai - 400118. Tel: 022-4082-9999 / 220-0011. Fax: 022-2447-3681. E-Mail: [reg@cashetindia.com](mailto:reg@cashetindia.com) Website: [www.cashetindia.com](http://www.cashetindia.com)

**PUBLIC NOTICE**

This is to notify to all the trade stockists/wholesalers/retailers/consumer and public at large that CACHET PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED has reduced the Maximum Retail Prices (MRPs) in respect of the following DPCO 2011 medical formulations linked to the Ceiling Price notification No. S. O. 484(E) dated 02.02.2023 issued by the National Pharmaceuticals Pricing Authority. You are requested to ensure that the benefit of the reduction in price is passed on to the consumer, and they are offered at reduced price as per current price list or printed MRP, whichever is lower.

Price list of below products can be obtained from your trade/channel partner or Company's Depot/ O&F agent.

Product Name	Pack	Max. Retail Price effective from 07/02/2023
EMITINO 2 ML INJECTION	2 ml Amp. X 5	59.58
LACTOCLAAV DRY SYRUP	30ml	60.48
COMIBLOX CV DRY SYRUP	30ml	60.48
TRAXOLO DRY SYRUP	30ml	48.72
TRAXOLO 100 DRY SYRUP	30ml	71.56
EMITIVA 2 ML INJECTION	2 ml Amp. X 1	11.92
EMITIVA 4 ML INJECTION	4 ml Amp. X 1	23.84

Date: 02.02.2023  
 Place: MUMBAI

For Cachet Pharmaceuticals Private Limited  
 Sd/-  
 Sanjeev Kulkarni  
 Manager-Accounts

**Hindustan Steelworks Construction Limited**  
 (A Government of India Undertaking)  
 A Subsidiary of NHPC (P. Ltd.)  
 3rd Floor, NHPC Services, Post Bag No. 10, Action Area III, Kolkata-700135 (W.B.)  
 CPO Division

**Notice Inviting e-Tender**  
 NIT No. HSL/CP/HRM/2023/e-257  
 Online Tenders are invited for the work of "Engagement of Manpower Agency for Deployment of Technical/Non-Technical Personnel in various locations across India". Bid documents and correspondence, if any, etc. are available at <http://eprocure.gov.in/eprocure/app>. Last date of Online Submission: 21.02.2023  
 Sd/-: 2023-23-006 Head (CPO)  
 CIN No: U02718WB1984 G0021818  
 Website: [www.hslindia.in](http://www.hslindia.in)

**TATA TATA POWER**  
 (Corporate Contracts Department)  
 Sahar Receiving Station, Near Hotel Leela, Anheri (E), Mumbai 400 059, Maharashtra, India (Board Line: 022-671174188, Mobile 9223501476) CIN: L28920MH1919PL0000567

**NOTICE INVITING EXPRESSION OF INTEREST**

The Tata Power Company Limited hereby invites Expression of Interest from interested and eligible parties for following job at Mathon Power Ltd (MPL), Jharkhand, India.

- Construction of Boundary Wall at Mathon Power Ltd Plant
- Construction of Perimeter Road at Mathon Power Ltd Plant

For details of pre-qualification requirements, purchasing of tender document, bid security, etc., please visit Tender section of our website (URL: <https://www.tatapower.com/tender/tenderlist.aspx>). Eligible parties wishing to participate may submit their expression of interest along with the tender fee for issue of respective tender documents latest by 16<sup>th</sup> Feb 2023.

**ADITYA BIRLA GRASIM INDUSTRIES LIMITED**  
 Regd. Office: P.O. Birangam, Nagda - 466 331, Dist. Ujjain, Madhya Pradesh, India. Tel: +91 7866-246766  
 Corporate Office: Aditya Birla Centre, 7<sup>th</sup> Wing, 2<sup>nd</sup> Floor, S.K. Aheer Marg, Work Mumbai - 400 030, Maharashtra, India  
 Tel. No. + 91 22 6652 5000 / 2495 5000. Fax No. + 91 22 6652 5114 / 2499 5114  
 E-mail: [grasim@adityabirla.com](mailto:grasim@adityabirla.com) Website: [www.grasim.com](http://www.grasim.com)

Pursuant to Regulation 29(1) and other relevant regulations of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of Grasim Industries Limited ("the Company") will be held on Tuesday, 14<sup>th</sup> February 2023, inter-alia, to consider and approve the unaudited financial results of the Company for the quarter and nine months ended 31<sup>st</sup> December 2022. In terms of the Code of Conduct to Regulate, Monitor and Report Trading by Designated Persons in Listed or Proposed to be Listed Securities of Grasim Industries Limited, the trading window for dealing in the securities of the Company has been closed from 1<sup>st</sup> January 2023 and shall remain closed till 48 hours after the announcement of unaudited financial results i.e. up to 16<sup>th</sup> February 2023 (both days inclusive).

This Notice is also available on the following websites: [www.grasim.com](http://www.grasim.com), [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)

For Grasim Industries Limited  
 Sd/-  
 Sushil Daga  
 Company Secretary

**GOVERNMENT OF TAMIL NADU FINANCE DEPARTMENT, CHENNAI-9**  
 Dated: February 06, 2023

**PRESS COMMUNIQUE**

1. It is notified for general information that the outstanding balance of 8.60% Tamil Nadu SDL 2023 issued in terms of the Government of Tamil Nadu Finance Department Notification No.2441/W.M.-II/2013, dated March 01, 2013 will be repaid at par on March 06, 2023 with interest due up to and including March 05, 2023. In the event of a holiday being declared on the aforesaid date by any State Government under the Negotiable Instruments Act, 1881, the loan will be repaid by the paying offices in that State on the previous working day. No interest will accrue on the loan from and after March 06, 2023.

2. As per sub-regulation 24(2) and 24(3) of Government Securities Regulations, 2007 payment of maturity proceeds to the registered holder of Government Security held in the form of Subsidiary General Ledger or Constituent Subsidiary General Ledger account or Stock Certificate shall be made by a pay order incorporating the relevant particulars of the bank account or by credit to the account of the holder in any bank having facility of receipt of funds through electronic means. For the purpose of making payment in respect of the securities, the original subscriber or the subsequent holders of such a Government Securities, as the case may be, shall submit to the Bank or Treasury and Sub-Treasury or branch of State Bank of India, where they are enforced / registered for payment of interest, as the case may be, the relevant particulars of their bank account, as the case may be, in the absence of relevant particulars of bank account / mandate for receipt of funds through electronic means, to facilitate repayment on the due date, holders of 8.60% Tamil Nadu SDL 2023, should tender their securities at the Public Debt Office, 20 days in advance. The securities should be tendered for repayment, duly discharged on the date thereof as under:-

"Received the Principal due on the Certificate".

4. It should be particularly noted that at places where the treasury work is done by a branch of the State Bank of India, the securities, if they are in the form of Stock Certificates, should be tendered at the branch of the bank concerned and not at the Treasury / Sub-Treasury.

5. Holders who wish to receive payment at places other than those where the securities have been enforced for payment should send them duly discharged to the Public Debt Office while making payment by Registered and Instructed Post. The Public Debt Office will make payment by issuing a draft payable at any Treasury / Sub-Treasury or branch of State Bank of India conducting Government Treasury work in the State of Tamil Nadu.

N. MURUGANANDAM  
 Additional Chief Secretary to Government,  
 Finance Department, Chennai-9  
 DIPR/180/Display/2023

**V-MART**

**Extract of unaudited financial results for the quarter and nine months ended 31<sup>st</sup> December, 2022**

S. No.	Particulars	₹ in lakhs (except per share data)					
		31.12.2022 (Unaudited)	30.09.2022 (Unaudited)	31.12.2021 (Unaudited)	31.12.2021 (Unaudited)	31.12.2021 (Audited)	31.03.2022 (Audited)
1	Total Income	77,758.00	50,881.36	66,641.61	1,87,836.44	1,21,856.92	1,68,013.44
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	2,641.18	(1,568.24)	7,636.94	3,856.63	1,840.40	1,039.67
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2,641.18	(1,568.24)	7,636.94	3,856.63	1,840.40	1,039.67
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,997.21	(1,131.35)	5,711.25	2,911.07	1,435.33	1,164.07
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax))	2,026.21	(1,058.09)	5,671.88	2,998.08	1,307.23	977.16
6	Paid up equity share capital (face value of ₹ 10 per share each)	1,977.25	1,976.84	1,974.01	1,977.25	1,974.01	1,974.95
7	Reserves (excluding Reserves/Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year						82,964.85
8	Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) - (not annualized)						
(a) Basic (₹)		10.11	(5.73)	28.85	14.73	7.23	5.90
(b) Diluted (₹)		10.08	(5.74)	28.82	14.69	7.20	5.88

**Note:**  
 The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of quarterly financial results is available on the Stock Exchanges websites - [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on the Company's Website - [www.vmartretail.com](http://www.vmartretail.com).

The financial results were prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as specified in section 133 of the Companies Act, 2013.

The said financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in its meeting held on 06th February, 2023.

For and on behalf of the Board of Directors of V-Mart Retail Ltd.  
 Sd/-  
 Lalit Agarwal  
 Managing Director  
 DIN: 00909090

**V-MART RETAIL LIMITED**  
 Regd. Off: 610 611, Guru Ram Das Nagar, Main Market, Opp. SBI Bank, Laxmi Nagar, New Delhi - 110092.  
 Corporate Off: Plot No. 802, Udyog Vihar, Industrial Area, Phase - V, Gurgaon - 122016  
 Tel: 0124-4649339 Fax: 0124-4649066 Email: [info@vmart.com](mailto:info@vmart.com)  
 Website: [www.vmartretail.com](http://www.vmartretail.com) CIN - L15199DL2002PLC16377

**BLS BLS INTERNATIONAL SERVICES LIMITED**  
 CIN: L15199DL1983PLC16907

Regd. Office: G-4, B-1, Extension, Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi-110044.  
 Tel. No. 011-49795002, Fax: 011-23735264, Email: [compliance@bbsinternational.com](mailto:compliance@bbsinternational.com), Website: [www.bbsinternational.com](http://www.bbsinternational.com)

**Statement of Unaudited Financial Results of the Company for the Quarter and Nine Months ended Dec 31, 2022**

**MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS OF RESULTS**

- The Company delivered highest ever Operational Revenue of ₹ 438.0 Cr & Highest ever quarterly EBITDA of ₹ 66.3 Cr Q3 FY23. Consolidated Revenue stood at ₹ 92.96 Crores Q3 FY23 and EBITDA stood at ₹ 16.73 Crores Q3 FY23.
- The Main drivers of revenue were -  
 - Steady recovery in visa & consular business  
 - Increase in Revenue from 20th overseas included 2MPLI (₹ 42.2 Cr Q3)
- Annualized Return on Equity (a key measure of capital efficiency) stands at 28.4%. We are constantly striving to improve this by better utilization of assets and tighter control of operations, leading to margin improvement.
- BLS's business model is free cash positive and management is focused on cash generation as a key business performance metric.
- The Company is one of the World's Top 3 Visa & Consular Services Companies along with diversified business of E-Governance and Banking Corporation.
- The Company achieved the highest ever operating cash flow of approximately ₹ 74.35 crores in the quarter.

**Recent Major Updates:**

- BLS issued bonus shares in the ratio 1:1 during the quarter
- BLS commenced 4300+ Grama Centres in Karnataka
- Company won contract from Malaysian Immigration Authority to issue e-Visas

**Consolidated Financial Results**

Particulars	Quarter Ended		Half Year Ended		Year Ended
	December 31, 2022	September 30, 2022	December 31, 2021	December 31, 2021	
Total Income from Operations	43,789.88	35,883.98	22,705.79	106,786.31	59,604.71
Net Profit for the period (before tax & exceptional items)	6,829.62	6,521.77	2,144.51	15,792.79	7,689.77
Net Profit for the period (after tax & exceptional items)	4,584.95	5,098.77	2,529.09	12,763.77	7,650.44
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	6,242.62	6,893.98	3,122.05	15,751.17	8,246.90
Equity Share Capital (Face Value of ₹ 10/- each)	4,105.84	2,048.00	1,024.50	4,105.84	1,024.50
Earnings per Share (EPS) (not Annualized)	1.23	1.23	0.69	3.20	1.85
(a) Basic EPS - ₹	1.23	1.23	0.69	3.20	1.85
(b) Diluted EPS - ₹	1.23	1.23	0.69	3.20	1.85

**Notes:**  
 1. Key Standalone financial information is as under -

Particulars	Quarter Ended		Half Year Ended		Year Ended
	December 31, 2022	September 30, 2022	December 31, 2021	December 31, 2021	
Total Income from Operations	2,198.52	2,404.49	1,134.56	5,162.80	4,028.66
Net Profit for the period (before tax & exceptional items)	996.12	976.88	533.22	2,306.71	385.29
Net Profit for the period (after tax & exceptional items)	760.45	656.61	419.88	1,321.61	352.80
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	752.79	661.95	464.8	3,024.22	366.30

2. The above audited results have been reviewed by the Audit Committee of the Board and approved in the meeting of the Board of Directors held on 16th February, 2023. The Statutory Auditor, M/s. Chartered Accountants, BTL, were engaged to audit the financial statements of the Company for the quarter and nine months ended 31<sup>st</sup> December 2022. The Statutory Auditor has issued its audit report in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under the Companies Act, 2013.

3. The above financial results are unaudited and are subject to audit by the Statutory Auditor. The Company's financial statements for the quarter and nine months ended 31<sup>st</sup> December 2022 are subject to audit by the Statutory Auditor. The Company's financial statements for the quarter and nine months ended 31<sup>st</sup> December 2022 are subject to audit by the Statutory Auditor. The Company's financial statements for the quarter and nine months ended 31<sup>st</sup> December 2022 are subject to audit by the Statutory Auditor.

4. The above financial results are unaudited and are subject to audit by the Statutory Auditor. The Company's financial statements for the quarter and nine months ended 31<sup>st</sup> December 2022 are subject to audit by the Statutory Auditor. The Company's financial statements for the quarter and nine months ended 31<sup>st</sup> December 2022 are subject to audit by the Statutory Auditor.

5. The above financial results are unaudited and are subject to audit by the Statutory Auditor. The Company's financial statements for the quarter and nine months ended 31<sup>st</sup> December 2022 are subject to audit by the Statutory Auditor. The Company's financial statements for the quarter and nine months ended 31<sup>st</sup> December 2022 are subject to audit by the Statutory Auditor.

6. The above financial results are unaudited and are subject to audit by the Statutory Auditor. The Company's financial statements for the quarter and nine months ended 31<sup>st</sup> December 2022 are subject to audit by the Statutory Auditor. The Company's financial statements for the quarter and nine months ended 31<sup>st</sup> December 2022 are subject to audit by the Statutory Auditor.

7. The above financial results are unaudited and are subject to audit by the Statutory Auditor. The Company's financial statements for the quarter and nine months ended 31<sup>st</sup> December 2022 are subject to audit by the Statutory Auditor. The Company's financial statements for the quarter and nine months ended 31<sup>st</sup> December 2022 are subject to audit by the Statutory Auditor.

8. The above financial results are unaudited and are subject to audit by the Statutory Auditor. The Company's financial statements for the quarter and nine months ended 31<sup>st</sup> December 2022 are subject to audit by the Statutory Auditor. The Company's financial statements for the quarter and nine months ended 31<sup>st</sup> December 2022 are subject to audit by the Statutory Auditor.

9. The above financial results are unaudited and are subject to audit by the Statutory Auditor. The Company's financial statements for the quarter and nine months ended 31<sup>st</sup> December 2022 are subject to audit by the Statutory Auditor. The Company's financial statements for the quarter and nine months ended 31<sup>st</sup> December 2022 are subject to audit by the Statutory Auditor.

10. The above financial results are unaudited and are subject to audit by the Statutory Auditor. The Company's financial statements for the quarter and nine months ended 31<sup>st</sup> December 2022 are subject to audit by the Statutory Auditor. The Company's financial statements for the quarter and nine months ended 31<sup>st</sup> December 2022 are subject to audit by the Statutory Auditor.

Place: New Delhi - 110002  
 Date: February 6, 2023

Sd/-  
 Sushant Agrawal  
 Managing Director  
 DIN: 02032023

**TVS MOTOR COMPANY LIMITED**  
 Regd. Office: "Chattany", No.12, Khader Nawaz Khan Road, Nungambakkam, Chennai - 600 006.  
 Tel: 044 - 28323215 Fax: 044 - 28323131 CIN: L35921TN1929PLC22845  
 Website: [www.tvsmotor.com](http://www.tvsmotor.com) E-mail: [contact@tvsmotor.com](mailto:contact@tvsmotor.com)

**NOTICE PURSUANT TO SECTION 110 OF THE COMPANIES ACT, 2013 AND THE COMPANIES (MANAGEMENT AND ADMINISTRATION) RULES, 2014**  
**Dispatch of postal ballot forms**

Members are hereby informed that the Company has on 6<sup>th</sup> February 2023, sent the Notice to the members pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 (the Act), in relation to the special resolution as contained in the Notice, in electronic mode to the members, whose e-mail address are registered with the Company or the Depository Participant(s) unless the members have registered their request for a hard copy of the same. The Company has also dispatched the copies of Postal Ballot Notice along with the self-addressed pre-paid postage envelope to those shareholders whose email address are not registered with the Depositories / Company, at their registered addresses.

The Company has also offered e-Voting facility for voting in accordance with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 41 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The Company has engaged National Securities Depository Limited (NSDL) for this purpose. The Board of Directors of the Company have appointed Mr. K. Sriram, Practicing Company Secretary, Chennai, as Scrutinizer for conducting the Postal Ballot and e-Voting in a fair and transparent manner.

Members are therefore requested to carefully read the instructions printed for voting through Postal Ballot and / or e-Voting on the Postal Ballot Form and to note the following:

Sr No.	Particulars	Details
1	Statement on special business transacted by Postal Ballot and e-Voting	Approving the appointment of Mr. B. Sriram (DIN: 02937078) as a Non-Executive Independent Director (NE-ID)
2	Date of completion of dispatch of Notice	06.02.2023
3	Cut-off date for determining the eligibility to vote through electronic means or through postal ballot paper	27.01.2023
4	Date of commencement of voting through Postal Ballot or by electronic mode	08.02.2023 (9:00 a.m.) (IST)
5	Date of end of voting through Postal Ballot or by electronic mode. Any Postal Ballot form received from members beyond the said date will not be valid and voting by electronic means shall not be allowed beyond the said date.	09.03.2023 (5:00 p.m.) (IST)
6	Day, date and venue of declaration of results and of the list of the website where such results will be displayed.	Friday, the 10 <sup>th</sup> March 2023 at the Company's registered office at "Chattany", No.12, Khader Nawaz Khan Road, Nungambakkam, Chennai - 600 006 and on the Company's website viz. <a href="http://www.tvsmotor.com">www.tvsmotor.com</a>
7	Website details of the Company / Agency, where the Notice of Postal Ballot is displayed.	<a href="http://www.tvsmotor.com">www.tvsmotor.com</a> / <a href="http://www.evoting.nsdl.com">www.evoting.nsdl.com</a>
8	Contact details of the person responsible to address the grievances connected with Postal Ballot / e-Voting	Postal Ballot: Mr. K. Srinivasan, Company Secretary, Email ID: <a href="mailto:contact@tvsmotor.com">contact@tvsmotor.com</a> , <a href="mailto:corpsec@nsdlindia.in">corpsec@nsdlindia.in</a> Telephone No: 044-28323215 e-Voting: Ms. Pallavi Mishra, Manager, NSDL, Email IDs: <a href="mailto:evoting@nsdl.in">evoting@nsdl.in</a> Telephone Nos: 022-24954945 Toll Free No: 1800-102-9901/1800-224-430 Frequently Asked Questions and e-voting manual are available at <a href="http://www.evoting.nsdl.com">www.evoting.nsdl.com</a> under downloads section.

Members are also requested to note that if they have not received the Postal Ballot Forms, they may apply to the Company and obtain a duplicate thereof.

By Order of the Board  
 For TVS Motor Company Limited  
 K. Srinivasan  
 Company Secretary  
 Chennai  
 6<sup>th</sup> February 2023

**Shankara Building Products Ltd.**

Highest ever quarterly revenue ₹1080 Crores

Net working capital days stood at 26 days

Operating cash flow as of Dec 22 stood at ₹ 95 crores

**Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months ended 31<sup>st</sup> December 2022**

Particulars	For the Quarter ended			For the Nine months ended		
	31.12.2022 (Unaudited)	30.09.2022 (Unaudited)	31.12.2021 (Unaudited)	31.12.2021 (Unaudited)	31.12.2021 (Audited)	31.03.2022 (Audited)
Total Income from Operations (net)	1,083.99	909.66	595.16	2,826.55	1,638.41	2,421.50
Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	22.76	19.65	4.84	58.43	25.16	46.06
Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	22.75	19.65	4.84	58.43	25.16	46.06
Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	16.37	15.52	3.52	43.91	18.75	34.32
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	16.46	15.42	3.62	44.00	18.65	34.29
Equity Share Capital (Face Value of ₹ 10/- each)	22.85	22.85	22.85	22.85	22.85	533.11
Reserves/Reserve/Revaluation reserve as per balance sheet of previous year						
Earnings per Share (of ₹ 10/- each) - not annualized						
Basic & Diluted (₹)	7.16	6.79	1.54	19.22	8.21	15.02

**Key results of Shankara Building Products Limited on a standalone basis**

Particulars	31.12.2022	30.09.2022	31.12.2021	31.12.2021	31.03.2022
Total Income	1,113.30	889.30	500.06	2,812.93	1,555.55
Profit before tax	22.48	17.85	5.74	54.92	19.88
Profit after tax	16.14	14.27	4.18	41.33	14.85
Total Comprehensive Income	16.24	14.18	4.27	41.41	14.62

**Note:**  
 The detailed Statement of Unaudited Financials Results for the Quarter and Nine months ended December 31, 2022 is available on the Stock Exchange websites [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com), [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and Company's website [www.shankarabuildprod.com](http://www.shankarabuildprod.com)

Place: Bengaluru  
 Date: 6<sup>th</sup> February, 2023

SHANKARA BUILDING PRODUCTS LIMITED  
 CIN: L26922KA1995PLC018990, Registered Office: G-2, FARAH WINSFORD, 133, INFANTRY ROAD, BENGALURU - 560 001  
 Website: [www.shankarabuildprod.com](http://www.shankarabuildprod.com), Email: [compliance@shankarabuildprod.com](mailto:compliance@shankarabuildprod.com)

Sd/-  
 SUKUMAR SRINIVAS  
 Managing Director  
 DIN: 011668064

